



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 619]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 3, 2012/अग्रहायण 12, 1934

No. 619]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 3, 2012/AGRAHAYANA 12, 1934

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2012

सा.का.नि. 872(अ)/आ.व./चीनी.— केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (3ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनंतिम चीनी (2009-2010 में उत्पादन के लिए कीमत निर्धारण) आदेश, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम अनंतिम चीनी (2011-2012) में उत्पादन के लिए कीमत निर्धारण) संशोधन आदेश, 2012 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. चीनी (2011-2012 में उत्पादन के लिए कीमत निर्धारण) आदेश, 2012 की अनुसूची 3 में,-

(क) पश्चिमोत्तर कर्नाटक शीर्षक के अधीन संबंधित,-

(i) क्रम संख्यांक 29 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“29	62101	विश्वनाथ शुगर एवं स्टील उद्योग लिमिटेड, बेल्लाड़, बेगवाड़ी तालुका-हुकेरी, जिला-बेलगांव”;
-----	-------	--

(ii) क्रम संख्यांक 36 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“37	66801	मेसर्स रेवाकृपा, शुगर प्राइवेट लिमिटेड, डाकघर-उडापुड़ी, तालुका-रामदुर्ग, जिला-बेलगांव ।
38	66901	गोकाक शुगर लिमिटेड, कोलावी, तालुका -गोकाक, जिला-बेलगांव ।
39	67201	शोभाग्यलक्ष्मी शुगर लिमिटेड, ग्राम हिरेनन्धी, तालुका-गोकाक, जिला-बेलगांव”;

(ख) महाराष्ट्र (केन्द्रीय) शीर्षक के अधीन संबंधित,-

(i) क्रम संख्यांक 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“33	35301	श्री अगास्ती सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, अगास्ती नगर, तालुका - अकोले, जिला - अहमद नगर” ;
-----	-------	---

(ii) क्रम संख्यांक 58 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“58	60101	अनुराग शुगर मिल्स लिमिटेड येवात, तालुका -दौंड, जिला- पुणे” ;
-----	-------	--

(iii) क्रम संख्यांक 71 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“72	67101	मैसर्स आर्यन शुगर प्राइवेट लिमिटेड, खामगांव, तालुका-बारशी, जिला-सोलापुर।
73	67301	मैसर्स जयश्रीराम शुगर एवं ऐग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, हालगांव, तालुका-जमखेड़, जिला-अहमदनगर ।
74	67401	मातोश्री लक्ष्मी शुगर सह-उत्पादक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रुडदेवाडी, डाकघर-दुधनी, तालुका-अक्कालकोट, जिला-सोलापुर”;

(ग) उत्तर प्रदेश (पूर्व) शीर्षक के अधीन संबंधित,-

(vi) क्रम संख्यांक 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"28	08901	बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड, बलरामपुर, जिला-गौडा ।
-----	-------	--

[सं. 2-6/2011-एसपी-II]

अधीर झा, निदेशक (एसडीएफ)

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 125(अ)/आ.व./चीनी, 7 मार्च, 2012 को जारी किया गया और प्रकाशित किया गया था ।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 3rd December, 2012

G.S.R. 872(E)/Ess.Com./Sugar.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3C) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order, to amend the Provisional Sugar (Price Determinations for 2011-2012 Production) order, 2012, namely:-

1. Short title and commencement:-

- (1) This order may be called the Provisional Sugar (Price Determination for 2011-2012 Production) Amendment Order, 2012.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Sugar (Price Determination for 2011-2012 Production) Order, 2012,

In Schedule III, -

- (a) under the heading relating to

North West Karnataka,-

- (i) for serial No. 29 and the entries relating Thereto, in following shall be substituted namely:-

"29	62101	Vishwanath Sugars & Steel Industries Ltd., Bellard Bagewadi Taluk:- Hukeri, District- Belgaum";
-----	-------	---

- (ii) after serial No. 36 and the entries relating Thereto, the following shall be inserted, namely:-

"37	66801	M/s Revakripa Sugars Pvt. Ltd., At Post Udupudi, Taluk- Ramdurg, District- Belgaum.
38	66901	Gokak Sugars Ltd., Kolavi, Taluka-Gokak, District- Belgaum.
39	67201	Soubhagyalaxmi Sugar Ltd., At Hirenandhi Village, Taluk - Gokak, District- Belgaum";

- (b) under the heading relating to **Maharashtra (Central),-**

- (i) for serial No. 33 and the entries relating Thereto, the following shall be substituted, namely:-

"33	35301	Shri Agasti Sahkari Sakhar Karkhana Ltd., Agastinagar, Taluka-Akole, District-Ahmednagar";
-----	-------	--

- (ii) for serial No. 58 and the entries relating Thereto, the following shall be substituted, namely:-

"58	60101	Anurag Sugar Mills Ltd, Yewat, Tk.- Daund, District- Pune";
-----	-------	---

- (iii) after serial No. 71 and the entries relating Thereto, the following shall be inserted, namely:-

"72	67101	M/s Aryan Sugars Pvt Ltd., At Khamgaon, Taluk- Barshi, District- Solapur.
73	67301	M/s Jaishriram Sugar & Agro Products Ltd., Halgaon, Taluk- Jamkhed, District- Ahemednagar.
74	67401	Matoshri Laxmi Sugar Cogeneration Industries Ltd., At Ruddhewadi, Post- Dudhni, Taluk- Akkalkot, District- Solapur";

(c) under the heading relating to
Uttar Pradesh (East)

(vi) for serial No. 28 and the entries relating Thereto, , the following shall be substituted
namely:-

28	08901	Balrampur Chinni Mills Ltd., Balrampur, District- Gaunda.
----	-------	---

[No. 2-6/2011-SP-II]

ADHIR JHA, Director (SDF)

Note:—Principal Notification was issued vide notification No. G.S.R 125 (E)/Ess.Com/Sugar, dated 7th March, 2012, and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated 7th March, 2012.

आदेश

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2012

सा.का.नि. 873(अ)/आ.व./चीनी.— केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (3ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनंतिम चीनी (2009-2010 में उत्पादन के लिए कीमत निर्धारण) आदेश, 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम अनंतिम चीनी (2009-2010 में उत्पादन के लिए कीमत निर्धारण) संशोधन आदेश, 2012 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. चीनी (2009-2010 में उत्पादन के लिए कीमत निर्धारण) आदेश, 2010 की अनुसूची 3 में महाराष्ट्र (केन्द्रीय) से संबंधित शीर्षक के अधीन क्रम संख्यांक 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“33. श्री अगास्ती सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, अगास्ती नगर, तालुका - अकोले, जिला - अहमद नगर”

[सं. 2(3)/2008-एसपी-II भाग]

अधीर झा, निदेशक (एसडीएफ)

टिप्पण:— मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 21 जून, 2010 द्वारा जारी किया गया को अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 527(अ)/आ.व./चीनी, और तारीख 21 जून, 2010 को प्रकाशित किया गया था और भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 29 अप्रैल, 2011 को अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 350, तारीख 29 अप्रैल, 2011 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया ।

ORDER

New Delhi, the 3rd December, 2012

G.S.R. 873(E)/Ess.Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3C) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the provisional Sugar (price Determination for 2009 – 2010 production) order, 2010, namely:-

1. Short title and commencement:-

(1) This order may be called the Provisional Sugar (Price Determination for 2009-2010 Production) Amendment Order, 2012.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Sugar (Price Determination for 2009-2010 Production) Order, 2010, in Schedule III, under the heading relating to Maharashtra (Central), for serial no. 33 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"33. Shri Agasti Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Agasti Nagar, Taluka – Akole, Distt – Ahmednagar."

[No. 2(3)/2008-SP-II Part]

ADHIR JHA, Director (SDF)

Note:—Principal Notification was issued vide notification No. G.S.R 527 (E)/Ess.Com./Sugar, dated 21st June, 2010, and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part - II, Section 3, Sub-section (i), dated 21st June, 2010 and last amended vide notification no. G.S.R 350 (E)/ESS.Com./Sugar, dated 29th April, 2011, and published in the Gazette of India Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated 29th April, 2011.